



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

17 ज्येष्ठ 1944 (श0)
(सं0 पटना 345) पटना, मंगलवार, 7 जून 2022

सामान्य प्रशासन विभाग

अधिसूचना

6 जून 2022

सं० 11/आ० गण-02/2022-9077/सा०प्र०—राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक 02.06.2022 के मद संख्या 09 के रूप में लिए गए निर्णय निम्न प्रकार अधिसूचित किये जाते हैं—

1. राज्य सरकार अपने संसाधनों से जाति आधारित गणना (Caste based survey) कराएगी।
2. सरकार के स्तर पर जाति आधारित गणना कराने की जिम्मेवारी सामान्य प्रशासन विभाग को दी जाएगी। जिला स्तर पर जिला पदाधिकारी (DM) इसके नोडल पदाधिकारी होंगे एवं इसके सम्पूर्ण प्रभार में रहेंगे।
3. सामान्य प्रशासन विभाग एवं जिला पदाधिकारी ग्राम स्तर, पंचायत स्तर एवं उच्चतर स्तरों पर विभिन्न विभागों के अधीनस्थ कार्य करने वाले कर्मियों की सेवाएँ इस कार्य हेतु ले सकेंगे।
4. जाति आधारित गणना के दौरान आर्थिक स्थिति के सर्वेक्षण का भी प्रयास किया जाएगा।
5. जाति आधारित गणना के क्रियान्वयन हेतु 500 (पाँच सौ) करोड़ रुपये का व्यय अनुमानित है। उक्त राशि का प्रावधान बिहार आकस्मिकता निधि से किया जाएगा।
6. गणना के इस कार्य को फरवरी, 2023 तक पूर्ण कर लिया जाएगा।
7. जाति आधारित गणना की प्रगति से समय-समय पर विधान सभा के विभिन्न दलों के नेताओं को अवगत कराया जाएगा।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
रजनीश कुमार,
सरकार के उप सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 345-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>